



कोतवाली - पुंवायाँ , जनपद - शाहजहाँपुर (उ.प्र.)

प्रेस नोट

थाना पुवाया पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पर पंजीकृत गंभीर घटना आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री एस.आनन्द के कुशल निर्देशन , पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री संजीव कुमार बाजपेयी व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ श्री पंकज पंत के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना पुवायाँ पर पंजीकृत गंभीर घटना आत्म हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्त को थाना पुवायाँ पुलिस की टीम द्वारा दबिश देकर किया गया गिरफ्तार ।

दिनांक 24.12.22 को वादी विजयपाल सिंह पुत्र हरिबक्स निवासी ग्राम बसखेडा बुजुर्ग थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर द्वारा अपने पुत्र दुर्वेश कुमार को अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र रामरतन उर्फ रामौतार निवासी ग्राम बसारा थाना पसगंवा जनपद खीरी द्वारा आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किया गया तथा दुष्प्रेरण मे आकर वादी की पुत्र ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की तथा दौराने ईलाज जिसकी मृत्यू हो गयी थी वादी विजयपाल उपरोक्त के द्वारा दिनांक 25.12.22 थाना पुवायाँ मु0अ0सं0 1005/22 धारा 306 भादवि बनाम संदीप कुमार उपरोक्त पंजीकृत करवाया गया था । उक्त मुकदमे की गवाह मृतक दुर्वेश कुमार की मंगेतर द्वारा भी विसाद मे आकर दिनांक 28.12.22 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी । अतः उक्त मुकदमे मे वांछित चल रहे अभियुक्त संदीप उपरोक्त की गिरफ्तारी किया जाना अति आवश्यक था जिसे दिनांक 30.12.22 को मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम इटौली तिराहे से को थाना पुवायाँ पुलिस की टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. संदीप कुमार पुत्र रामरतन उर्फ रामौतार निवासी ग्राम बसारा थाना पसगंवा जनपद खीरी ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 1005/2022 धारा 306 भादवि थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त संदीप कुमार उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरा दुर्वेश की मंगेतर के साथ लगभग 03 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था । कुछ दिनो पूर्व मुझे पता चला कि मेरी प्रेमिका की शादी दुर्वेश कुमार के साथ तय हो गयी है । मैं नहीं चाहता था कि मेरी प्रेमिका मेरे अलावा किसी और के साथ शादी करे । जिस कारण दुर्वेश कुमार को अपनी प्रेमिका से शादी करने से रोकने के लिये मेरे द्वारा धमकाया गया था तथा मेरी व मेरी प्रेमिका की अश्लील वीडियो दुर्वेश कुमार के व्हाट्सएप पर भेजी थी जिससे उसकी शादी टूट जाये । मुझे नहीं पता कि वह आत्महत्या कर लेगा । मुझसे गलती हो गयी है ।

गिरफ्तारी टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार राय
2. उप-निरीक्षक श्री राजाराम
3. हे0का0 500 श्रीप्रकाश
4. हे0का0 249 रामकिशुन
5. का0चालक चन्द्रपाल